



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मार्च 29, 1984/चैत्र 9, 1906

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1984/CHAITRA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

छाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1984

का. आ. 217 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लि. 43, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा तथा त्रिपुरा और केन्द्र शासित प्रदेश जहना-बल प्रदेश और मिजोरम में कच्चा पटसन (मैप्टा सहित) की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 29 मार्च, 1984 से 28 मार्च, 1986 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रवृत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिहिल संख्या-12(1)/आई-टी/82]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1984

S.O. 217(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of

the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of two years from the 29th March, 1984 to the 28th March, 1986 (both days inclusive) in respect of forward contracts in raw jute (including mesta) in the States of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, Orissa and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/82]

का. आ. 218(अ) :—केन्द्रीय सरकार का ईस्ट इण्डिया जूट और हैसन एक्सचेंज लिमिटेड, 47 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा अधिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर वायवा बाजार आयोग से परामर्श करके, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में है, अतः यह उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा, कलकत्ता नगर में, जूट के माल (किसी मिल द्वारा बनाया गया किसी भी किस्म का हैसन और बोरी का कपड़ा या बोरे या दोनों, सूतली या धागे या दोनों या जूट से बनाए गए किसी भी अन्य प्रकार के उत्पाद) की अधिम संविदा की बाबत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को 29 मार्च, 1984 से 28 मार्च, 1986 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) तक की दो वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, कलकत्ता नगर से अभिप्रेत है :—

- (1) कलकत्ता म्युनिसिपल अधिनियम, 1951 (पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 1957 का 43) की धारा 5 में यथा परिभाषित कलकत्ता और क्लाइड रो का हैस्टिंग नार्थ या साउथ भाग और नदी के किनारे तक स्ट्रैण्ड रोड और जो पहले टालीगंज नगर पालिका के, जो अब निष्क्रिय है, अधीन था ;
- (2) कलकत्ता पत्तन और ;
- (3) 24 परगना, नादिया, हावड़ा और हुगली के जिले।

2. इसको द्वारा अनुदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर वायवा बाजार आयोग द्वारा दिए जाएं।

[मिसिल संख्या-12(1)/आई-टो/82]

डी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 218(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, (74 of 1952), by the East India Jute and Hessain Exchange Limited, 43, Netaji Subhas Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of two years from the 29th March, 1984, to the 28th March, 1986 (both days inclusive) in respect of forward contracts in jute goods (hessian and sacking cloth or bags or both, twines or yarns or both manufactured by any of the mills or any other manufacture of whatever nature made from jute) in the city of Calcutta.

Explanation.—In this notification, the expression “City of Calcutta” means :—

- (1) Calcutta as defined in clause (ii) of section 5 of the Calcutta Municipal Act, 1951, (West Bengal Act 33 of 1951), together with part of Hastings North or South edge of Clyde Row and Strand Road to the river bank and the areas which were previously under the now defunct Tollygung Municipality.
- (2) The Port of Calcutta, and
- (3) The Districts of 24 paraganas, Naida, Hawrah and Hoogly.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/82]

D. K. SINGH, Jt. Secy.